



रामाज्ञा स्कूल, नाँएडा
कक्षा-छ /विषय-हिंदी /२०१७-१८
ओलिंपियाड अभ्यास पत्र

प्र० अवतरण के आधार पर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए-

अब राजप्पा के अलबम को कोई पूछने वाला नहीं था। वाकई उसकी शान अब घट गई थी। राजप्पा के अलबम की, लड़कों में काफी तारीफ़ रही थी। मधुमक्खी की तरह उसने एक-एक करके टिकट जमा किए थे। उसे तो बस एक यही धुन सवार थी। सुबह आठ बजे वह घर से निकल पड़ता। टिकट जमा करने वाले सारे लड़कों के चक्कर लगाता। दो ऑस्ट्रेलिया के टिकटों के बदले एक फिनलैंड का टिकट लेता। दो पाकिस्तान के बदले एक रूस का। बस शाम, जैसे ही घर लौटता, बस्ता कोने में पटककर अम्मा से चबेना लेकर निकर की जेब में भर लेता और खड़े-खड़े दूध पीकर निकल जाता। चार मील दूर अपने दोस्त के घर से कनाडा का टिकट लेने पगडंडियों में होकर भागता। स्कूल भर में उसका अलबम सबसे बड़ा था। सरपंच के लड़के ने उसके अलबम को पच्चीस रुपए में खरीदना चाहा था, पर राजप्पा नहीं माना। 'घमंडी कहीं का', राजप्पा बड़बड़ाया था। फिर उसने तीखा जवाब दिया था, "तुम्हारे घर में जो प्यारी बच्ची है न, उसे दे दो न तीस रुपए में।" सारे लड़के ठहाका मारकर हँस पड़े थे।

प्र०1. राजप्पा के पास क्या चीज थी जिसकी शान अब घट गई थी ?

उ०(क)अलबम (ख) गाड़ी (ग) तलवार (घ) कुछ नहीं

प्र० 2. राजप्पा ने किस तरह टिकट जमा किए थे ?

उ०(क) पागलों की तरह (ख) मधुमक्खी की तरह (ग)किसी भी तरह नहीं

प्र०3. राजप्पा को क्या धुन सवार थी ?

उ०(क) घूमने की (ख) टिकट जमा करने की (ग) सोने की (घ) कोई नहीं

प्र० 4. राजप्पा फिनलैंड के टिकट के बदले कहाँ के टिकट देता था ?

उ०(क) ऑस्ट्रेलिया के (ख)रूस के (ग) भारत के (घ) पाकिस्तान के

प्र०5. राजप्पा ने दो पाकिस्तान के टिकटों के बदले कहाँ का टिकट लिया ?

उ०(क) कनाडा के (ख) रूस के (ग) चीन के (घ) फ्रांस के

प्र०6. कनाडा का टिकट लेने राजप्पा कितने मील दूर गया ?

प्र०उ०(क) दो मील (ख)चार मील (ग) तीन मील (घ)एक मील

प्र०7. अवतरण के अनुसार किसका अलबम सबसे बड़ा था ?

उ०(क) राजप्पा का (ख) मोहन का (ग) राम का (घ) किसी का नहीं

प्र०8. सरपंच के लड़के ने राजप्पा का अलबम कितने रुपये में खरीदना चाहा ?

उ०(क) चालीस रूपए में (ख) पच्चीस रूपए में (ग) दस रूपए में (घ) मुफ्त में

प्र०9 अमृत का सही विलोम बताइए-

उ०(क) मृत (ख) विष (ग) मधु (घ) कटु

प्र०10 जून के महीने में बहुत----- होती है

उ०(क) गर्म (ख) सर्दी (ग) गर्मी (घ) बारिश

प्र०11 देखो गायकों की ----- गा रही है

उ० (क) गड़ड़ी (ख) टुकड़ी (ग) मण्डली (घ) श्रृंखला

प्र०12 बनावट की दृष्टि से शब्दों के कितने प्रकार होते हैं ?

उ० (क) एक (ख) दो (ग) तीन (घ) चार

प्र०13 ----- भाषा को शुद्धता प्रदान करता है

उ० (क) लिपि (ख) व्याकरण (ग) भाषा (घ) इनमें से कोई नहीं

प्र०14 हिंदी----- की राजभाषा है

उ० (क) भारत (ख) गुजरात (ग) हरियाणा (घ) दिल्ली

प्र०15 ----- भाषा नहीं है

उ० (क) कहना (ख) लिखना (ग) इशारे करना (घ) पढ़ना

प्र०16 “भाता” के गलत पर्यायवाची शब्द पर गोला लगाइए-

उ०(क) सहोदरा (ख) भाई (ग) बंधु (घ) इनमें से कोई नहीं

प्र०17 रेखांकित शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए- सभा में भाषण सुनने वाले बैठे हैं

उ०(क) गायिका (ख) श्रोता (ग) जलचर (घ) अमर

प्र०18 “अनुराग” शब्द में कौनसा उपसर्ग लगा है ?

उ० (क) अ (ख) अन (ग) अप (घ) अनु

प्र० 19 “कमाऊ” शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है ?

उ० (क) उ (ख) ऊ (ग) आऊ (घ) औऊ

प्र०20 संज्ञा के कितने भेद होते हैं?

उ० (क) एक (ख) दो (ग) तीन (घ) चार